

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2015-आश्विन 3, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रसकोर्स रोड, इन्दौर

#### शुद्धि-पत्र

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3(1) में दिनांक 28 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्रमांक 1411-1412 में प्रकाशित योजना क्रमांक 177 ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेडी, शक्करखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर के सम्बन्ध में निवेश अधिनियम की धारा-50 (7) की विज्ञप्ति क्रमांक 225, दिनांक 24 अगस्त, 2015 में ग्राम कुमेडी में खसरा नम्बर 6 पार्ट प्रकाशित हुआ है उसके स्थान 6 पढ़ा जावे.

(362-बी.)

राकेश सिंह,  
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

#### अन्य सूचनाएं

#### उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग, लखनऊ ( उ.प्र. )

दिनांक 22 अगस्त, 2915

क्र. 04-02/195/यो.व.रूपां./2216.—उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ ( उ.प्र. ) में है और यह बिजली के पारेषण के लिए बिजली की लाइनों/विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए या कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक दूरसंचार या टेलीग्राफिक संचार के प्रयोजन हेतु अनिवार्य है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-164 के तहत प्रदान किए गए सभी अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार के पास आवेदन करने का इच्छुक है, जो भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1985 के तहत टेलीग्राफ प्रयोजन हेतु टेलीग्राफ लाइनों और पोस्ट लगाने के सम्बन्ध में दूरसंचार प्राधिकरण को है, जिसकी स्थापना या रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है या इस प्रकार स्थापित या रखरखाव किए गये हैं, जो सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, इरेक्शन और निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के लिए कमीशनिंग, प्रचालन, रखरखाव और अन्य कार्यों के साथ और भी अन्य कार्य करेगा.

पारेषण योजना का नाम: ललितपुर टी. पी. एस. के लिए 765 के. बी. पारेषण प्रणाली.

योजना के तहत शामिल कार्य : 765 के. बी. ललितपुर-आगरा सर्किट 1 सिगिल सर्किट पारेषण लाइन.

योजना के तहत शामिल पारेषण लाइन मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़ के निम्नलिखित गांवों कस्बों और शहरों से, इन पर इनके आस-पास और इनके बीच से गुजरेगी :—

क्रम सं.	गाँव के नाम	तहसील/मण्डल	जिला
1	2	3	4
1.	डिंगरोला	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
2.	बतुआघाट	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
3.	मुराईनी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
4.	देभाना	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
5.	मोहनकाखिरीक	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
6.	जिरोनखस्बा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
7.	चारुपारा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
8.	कटारीयानो	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
9.	गुरडीयाना	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
10.	सुनैराताल	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
11.	प्यासकाखैरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
12.	भौरोसर	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
13.	मजरासेवालाल	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
14.	रामपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
15.	बन्डेरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
16.	कटरीयाकाखैरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
17.	मुन्नी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
18.	कराकीजैरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
19.	पिजानभाओ	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
20.	मीलाउन	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
21.	बेर	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
22.	सीमारा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
23.	खन्जोलैवारो	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
24.	पारदेवा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
25.	जेराखास	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
26.	चवलामाताकी खीरी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
27.	महुआबाँग	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
28.	सुमरईयाँखास	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
29.	बनीयानीखास	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़

1	2	3	4
30.	पदवानी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
31.	विषणुपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
32.	हथीवा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
33.	नीगूआ	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
34.	जुगलपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
35.	लिडबाह	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
36.	डिल्ला	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
37.	मौजाऊखादीन	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
38.	मनपसर	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
39.	रगौली	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
40.	कनूबारपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
41.	जुगई	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
42.	गवन्तपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
43.	सिनौनीआखास	निवारी	टीकमगढ़
44.	हरपुराखीरी	निवारी	टीकमगढ़
45.	भीतरी	निवारी	टीकमगढ़

रूट एलाइनमेंट की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है. एतद्वारा आम जनता से सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तावित पारेषण प्रणाली पर अवलोकन/अभ्यावेदन लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें. अन्य विवरणों और स्पष्टीकरणों के लिए कृपया सम्पर्क करें.

नाम : बी. एस. त्रिपाठी  
 पदनाम : अधीक्षण अभियन्ता  
 कार्यालय पता : विद्युत पारेषण मण्डल, 132 के. वी. उपकेन्द्र, हंसारी, झाँसी  
 ई-मेल पता : setjh@upptcl.org  
 फोन नं. : 08874204448

(343)

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जिस का पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.) में है और यह बिजली के पारेषण के लिए बिजली की लाइनों/विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए या कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक दूरसंचार या टेलीग्राफिक संचार के प्रयोजन हेतु अनिवार्य है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-164 के तहत प्रदान किए गए सभी अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार के पास आवेदन करने का इच्छुक है, जो भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1985 के तहत टेलीग्राफ प्रयोजन हेतु टेलीग्राफ लाइनों और पोस्ट लगाने के सम्बन्ध में दूरसंचार प्राधिकरण को है, जिसकी स्थापना या रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है या इस प्रकार स्थापित या रखरखाव किए गये हैं, जो सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, इरेक्शन और निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के लिए कमीशनिंग, प्रचालन, रखरखाव और अन्य कार्यों के साथ और भी अन्य कार्य करेगा.

पारेषण योजना का नाम: ललितपुर टी. पी. एस. के लिए 765 के. बी. पारेषण प्रणाली.

योजना के तहत शामिल कार्य : 765 के. बी. ललितपुर-आगरा सर्किट 2 सिगिल सर्किट पारेषण लाइन.

योजना के तहत शामिल पारेषण लाइन मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़ के निम्नलिखित गांवों कस्बों और शहरों से इन पर इनके आस-पास और इनके बीच से गुजरेगी :-

क्रम सं.	गाँव के नाम	तहसील/मण्डल	जिला
1	2	3	4
1.	डिंगरोला	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
2.	बतुआघाट	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
3.	मुराईनी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
4.	देभाना	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
5.	मोहनकाखिरीक	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
6.	जिरोनखस्बा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
7.	चारुपारा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
8.	कटरीयानो	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
9.	गुरडीयाना	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
10.	सुनैराताल	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
11.	प्यासकाखैरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
12.	भौरोसर	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
13.	मजरासेवालाल	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
14.	रामपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
15.	बन्डेरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
16.	कटरीयाकाखैरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
17.	मुन्नी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
18.	कराकीजैरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
19.	पिजानभाओ	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
20.	मीलाउन	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
21.	बेर	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
22.	सीमारा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
23.	खन्जोलैवारो	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
24.	पारदेवा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
25.	जेराखास	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
26.	चवलामाताकी खीरी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
27.	महुआबाँग	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
28.	सुमरईयाँखास	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
29.	बनीयानीखास	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
30.	पदवानी	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़

1	2	3	4
31.	विषणुपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
32.	हथीवा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
33.	नीगूआ	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
34.	जुगलपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
35.	लिडबाह	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
36.	डिल्ला	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
37.	मौजाऊखादीन	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
38.	मनपसर	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
39.	रगौली	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
40.	कनूबारपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
41.	जुगई	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
42.	गवन्तपुरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़
43.	सिनौनीआखास	निवारी	टीकमगढ़
44.	हरपुराखीरी	निवारी	टीकमगढ़
45.	भीतरी	निवारी	टीकमगढ़

रूट एलाइनमेंट की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है. एतद्वारा आम जनता से सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तावित पारेषण प्रणाली पर अवलोकन/अभ्यावेदन लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें. अन्य विवरणों और स्पष्टीकरणों के लिए कृपया सम्पर्क करें.

नाम : बी. एस. त्रिपाठी  
 पदनाम : अधीक्षण अभियन्ता  
 कार्यालय पता : विद्युत पारेषण मण्डल, 132 के. वी. उपकेन्द्र, हँसारी, झाँसी  
 ई-मेल पता : setjh@upptcl.org  
 फोन नं. : 08874204448

अशोक सक्सेना,  
 मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण),  
 आगरा.

(343-A-बी.)

#### CHANGE OF NAME

My former name surname of Sunita Kane and in place there of I do hereby assume from this date the name/ surname Smt. Gauri Thatte. Add. H.No.107-A, Sector-A, Shahpura, Bhopal.

Old Name :

( SUNITA KANE )

New Name :

( GAURI THATTE )

(344-B.)

**नाम परिवर्तन**

मेरा पूर्व नाम अतुल कुमार मिश्रा था, जिसे बदलकर अतुल मिश्रा हो गया है. अतः अब मुझे अतुल मिश्रा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( अतुल कुमार मिश्रा )

(345-बी.)

नया नाम :

( अतुल मिश्रा )

H.N. 1402, Block-1,  
Saumya Park Lands Awadhपुरी,  
BHEL, Bhopal.

**उप-नाम परिवर्तन**

विवाह के पूर्व मेरा नाम संगीता तिवारी (SANGEETA TIWARI) पुत्री शौखीलाल तिवारी रहा, मेरा विवाह पंकज कुमार मिश्र पिता मोतीलाल मिश्र, गोविन्दगढ़, जिला रीवा से सम्पन्न हुआ जिस कारण से मेरा उपनाम (SURNAME) तिवारी से मिश्र हो गया है. अतः अब मुझे भविष्य में संगीता तिवारी की जगह संगीता मिश्र (SANGEETA MISHRA) समस्त अवसरों, अभिलेखों में पढ़ा व जाना जाए.

पुराना नाम :

( संगीता तिवारी )

(347-बी.)

नया नाम :

( संगीता मिश्र )

पति-पंकज कुमार मिश्र  
वार्ड नं. 10, म. नं. 114, गोविन्दगढ़,  
रीवा (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री सेजल, आयु 3 वर्ष के जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश पिता का नाम मनीष श्रीवास्तव अंकित हो गया है. चूंकि वह भी मेरा ही नाम है. उक्त नाम को परिवर्तित करके मुनेश कुमार श्रीवास्तव कर लिया है. अतः मेरी पुत्री सेजल के जन्म प्रमाण-पत्र में पिता का नाम मुनेश कुमार श्रीवास्तव पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( मनीष श्रीवास्तव )

(348-बी.)

नया नाम :

( मुनेश कुमार श्रीवास्तव )

निवासी-बहरा पंडित संतर, मुरार,  
ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती अदिती फडके पति अतुल फडके, निवासी-138, जगदम्बा कॉलोनी, उखरी रोड, जानकी मेडीकल के पास, जबलपुर यह शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि विवाह के पूर्व मेरा नाम पदमा चक्रदेव था परन्तु विवाह के उपरान्त से ही मेरा नाम श्रीमती अदिती फडके पति अतुल फडके हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम श्रीमती अदिती फडके के नाम से ही जाना-पहचान जाये एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम :

( पदमा चक्रदेव )

(350-बी.)

नया नाम :

( अदिती फडके )

निवासी-138, जगदम्बा कॉलोनी, उखरी रोड,  
जानकी मेडीकल के पास, जबलपुर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में, अपना नाम प्रदीप चन्द्र खरे लिखता था. मैंने दिनांक 03-03-1983 से अपना नाम परिवर्तित कर प्रदीप खरे कर लिया है.

पुराना नाम :

( प्रदीप चन्द्र खरे )

(352-बी.)

नया नाम :

( प्रदीप खरे )

ईको सेन्टर मेडकी नसर्री, देवास (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मैं, मनोज कुमार त्यागी पुत्र श्री मलखान सिंह त्यागी, निवासी-एम-58, एम ब्लॉक ठाठीपुर, ग्वालियर के नाम से जाना जाता था यही नाम मेरे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय तथा शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजों में इसी नाम से जाना जाता था।

विगत कई वर्षों से मैंने अपना नाम मनोज कुमार त्यागी के स्थान पर मनोज शर्मा कर दिया है तथा मेरे पुत्र आर्यन शर्मा व पुत्री कु. आर्शिया शर्मा के शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य दस्तावेजों में मनोज शर्मा ही अंकित है।

अतः भविष्य में मेरा नाम मेरे तथा मेरे उपरोक्त दोनों बच्चों आर्यन शर्मा एवं कु. आर्शिया शर्मा के शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य समस्त शासकीय तथा अर्धशासकीय दस्तावेजों में मनोज कुमार त्यागी के स्थान पर मनोज शर्मा के नाम से जाना व पहिचाना तथा पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

( मनोज कुमार त्यागी )

( मनोज शर्मा )

(360-बी.)

एम-58, एम ब्लॉक ठाठीपुर, ग्वालियर.

**आम सूचना**

हम मोहन शिवहरे पुत्र रामस्वरूप शिवहरे एवं श्रीमती ममता शिवहरे पत्नि मोहन शिवहरे, निवासी म. नं. 41, खेड़ापति कॉलोनी, साई बाबा मंदिर के पास, लश्कर, ग्वालियर ने राकेश शिवहरे पुत्र श्री ग्यासीराम शिवहरे एवं शारदा शिवहरे पत्नी राकेश शिवहरे, निवासी -MIG-24, दर्पण कॉलोनी शिवपुरी की तीसरी संतान कु. कंचन को लिखतम गोदनामा पत्र दिनांक 22-07-2015 से गोद ले लिया है। गोद लेने के पश्चात् पुत्री कुमारी कंचन का नाम हमने परिवर्तित कर अंशिका शिवहरे रख लिया है। आज के बाद से कु. कंचन का नाम अंशिका शिवहरे पिता का नाम मोहन शिवहरे, माता का नाम श्रीमती ममता शिवहरे हो गया है। जिसे स्कूल, अन्य दस्तावेजों में इसी प्रकार लिखा व पढ़ा जाएगा।

अतः सर्व-साधारण को सूचित हो कि कु. कंचन पुत्री राकेश शिवहरे का नाम अंशिका शिवहरे पुत्री मोहन शिवहरे हो गया है।

मोहन शिवहरे पुत्र रामस्वरूप शिवहरे एवं  
श्रीमती ममता शिवहरे पत्नि मोहन शिवहरे,

**HARENDRA SHARMA,**

(Advocate),

3, A.B. Road Jiwaji Ganj

Lashkar Gwalior (M.P.).

(346-B.)

**PUBLIC NOTICE**

KNOWN ALL MEN that M/s Progressive India is partnership Firm and registered under the Firms & Societies Act bearing registration No. 19/1997-98 and its place of business at 6, Vishwanath Mandir Parisar, Shivaji Nagar, Bhopal. The Partners of firm were carrying the business of Civil supply, petrol pump. One of them partner No. 2 Smt. Karuna Singh has been retired with her shares and at present only two partners namely Dr. M.S. Chouhan and Sanket Singh Chouhan alias Abhimanyu Singh are carrying their business under the name and style of M/s Progressive India Bhopal in terms of partnership deed dated 24-07-2014. Now a retired partner Smt. Karuna Singh will not liable to any acts or deals with the firm.

**S. PRASAD,**

(Advocate),

125, Laxmi Plaza, Zone-II,

M.P. Nagar, Bhopal.

(351-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आर. के. इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन्स पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, इन्दौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 23-05-2015 को श्री अब्दुल रशीद पिता श्री अब्दुल गनी खिलजी, 210, अनूप नगर, इन्दौर की मृत्यु होने से फर्म के भागीदार नहीं रहे साथ ही मोहम्मद असलम पिता श्री अब्दुल गनी खिलजी, 210, अनूप नगर, इंदौर ने दिनांक 24-05-2015 को फर्म से भागीदार के रूप में त्याग-पत्र दिया होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं फर्म में श्री आकिब पिता श्री जावेद खिलजी और श्री शाकिब पिता श्री जावेद खिलजी दोनों, निवासी 304, अनूप नगर, इंदौर, दिनांक 24-05-2015 को फर्म में नए साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है।

For : R. K. Engineering Constructions,

साजिद हुसैन खिलजी,

(Partner).

(364-बी.)

### आम सूचना

हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मै. एन्डसग्रीन फ्यूल (रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा पंजीयन क्रमांक-02/42/01/0033/15, पंजीयन दिनांक 29-04-2014) एल-71, माधव नगर झाँसी रोड, ग्वालियर फर्म की भागीदार श्रीमती प्रभा गुप्ता पत्नि श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, निवासी-301, कबीर मेशन दरजी ओली, लश्कर, ग्वालियर ने उक्त फर्म से स्वेच्छापूर्वक अपना रिजाईन दे दिया है तदुपरांत फर्म की नवीन संशोधित भागीदारी विलेख 11-05-2015 भागीदारान के मध्य सम्पादित हुयी वर्तमान में उक्त फर्म में श्री अनिकेत वर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार वर्मा, डॉ. प्रतिभा गौतम पत्नि श्री शरद गौतम एवं श्रीमती दीपशिखा सारस्वत पत्नि श्री धरमेन्द्र सारस्वत कार्यरत हैं हर आम, खास, बैंकिंग, वित्तीय संस्था, निकाय उक्त फर्म के सम्बन्ध में वर्तमान में कार्यरत हैं भागीदारान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति से फर्म की ओर से किसी भी प्रकार संव्यवहार ना करें अन्यथा किये गये समस्त संव्यवहार फर्म के मुकाबले व्यर्थ व प्रभावहीन होकर फर्म पर कतई बंधकारी नहीं होंगे.

Ands Green Fuel

अनिकेत वर्मा,

(भागीदार).

द्वारा—

महेश प्रसाद अग्रवाल, LL. B.

ओम प्रकाश अग्रवाल, M.Com. LL. B.

(एडवोकेट्स)

(349-बी.)

101, रॉयल प्लाजा, हाईकोर्ट रोड, लश्कर, ग्वालियर.

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिव शक्ति ट्रेडिंग स्थित एच. डी. एफ. सी. बैंक के पास, दाल बाजार तिराहा, लश्कर, ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0322/15, दिनांक 03-03-2015 है. फर्म में दिनांक 01-07-2015 को भागीदार श्री सुधीर सिंह जादौन पुत्र श्री राजपाल सिंह जादौन, निवासी-7, यमुना नगर, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. फर्म में दो से कम भागीदार होने से फर्म स्वतः समाप्त हो गई है. आम जन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म शिव शक्ति ट्रेडिंग,

सुधीर सिंह जादौन,

(भागीदार)

एच. डी. एफ. सी. बैंक के पास,

दाल बाजार तिराहा, लश्कर, ग्वालियर.

(353-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स महावीर ज्वैलर्स स्थित अग्रवाल मार्केट मस्जिद के पीछे, टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00127/13, दिनांक 20-11-2013 को पंजीकृत है. दिनांक 01-10-2013 से चार भागीदारों के साथ मिलकर चलाई जा रही थी. दिनांक 18-02-2014 से चारों भागीदारों ने आपसी सहमती से उक्त फर्म की साझेदारी समाप्त कर ली है. जिसकी विधिवत् साझेदारी भंग पत्रक स्टाम्प पेपर पर तैयार की गई है. सर्व-साधारण को सूचित हो.

फर्म-महावीर ज्वैलर्स

गौरव गोयल,

अग्रवाल मार्केट, मस्जिद के पीछे,

टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(354-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री गणपति कन्स्ट्रक्शन्स, स्थित 155, शिवाजी नगर, आमखो महिला हॉकी स्टेडियम के पास, ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00022/10, दिनांक 23-04-2010 है. जिसमें दिनांक 19-04-2010 को भागीदार श्री सन्तोष कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री सिया रघुवीर चतुर्वेदी, निवासी-गली नं. 3, चतुर्वेदी नगर, भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 19-04-2010 को (1) श्री विनय कुमार तिवारी पुत्र श्री महावीर प्रसाद तिवारी, निवासी-155, शिवाजी नगर, आमखो, ग्वालियर, (2) श्री राकेश शिवहरे पुत्र श्री शिवराम शिवहरे, निवासी-गली नं. 3, चतुर्वेदी नगर, भिण्ड, (3) श्री एल. के. श्रीवास्तव पुत्र श्री एस. एल. श्रीवास्तव, निवासी गौतम नगर, भोपाल फर्म से नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 30-01-2010 को भागीदार (1) श्री विनय कुमार तिवारी पुत्र



श्री महावीर प्रसाद तिवारी, निवासी 155, शिवाजी नगर, आमखो, ग्वालियर, (2) श्री राकेश शिवहरे पुत्र श्री शिवराम शिवहरे, निवासी-गली नं. 3, चतुर्वेदी नगर, भिण्ड, (3) श्री एल. के. श्रीवास्तव पुत्र श्री एस.एल. श्रीवास्तव, निवासी-गौतम नगर, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

(361-बी.)

फर्म-श्री गणपति कन्स्ट्रक्शन्स  
शिवमंगल चतुर्वेदी,  
155, शिवाजी नगर, आमखो महिला  
हॉकी स्टेडियम के पास, ग्वालियर (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स कृष्णा बिल्डकॉन से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 01-12-2012 से फर्म का स्थान 138/3, वसुंधरा अपार्टमेंट के पास, राजपुरा, बुरहानपुर मध्यप्रदेश 450331 हो गया है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

(355-बी.)

For : Krishna Build Con.  
निर्मलादेवी मुंशी,  
(Partner)  
एम 3/2, पुराना नगर निगम रोड,  
बुरहानपुर (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स व्यंकुण्ठ डेव्हलपर्स से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 01-12-2012 से फर्म का स्थान 62-63, गोकुलधाम कॉलोनी, शाहदरा दरगाह रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश 450331 हो गया है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

(356-बी.)

For : Vaikunth Developers  
किरण देवी चांडक,  
(पार्टनर)  
62-63, गोकुलधाम कॉलोनी,  
शाहदरा दरगाह रोड, बुरहानपुर (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सूरज जीनिंग फैक्ट्री जिसका पता वरला रोड, सेंधवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1F/65/97-98, दिनांक 21-10-1997 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री घनश्याम पिता श्री सूरजमल अग्रवाल, 2. श्री गजानन पिता श्री सूरजमल अग्रवाल एवं 3. श्री मोहनलाल पिता श्री सूरजमल अग्रवाल थे. दिनांक 10-06-2003 को श्री मोहनलाल पिता श्री सूरजमल अग्रवाल का देहावसान हो गया था. इस कारण वह पृथक् हो गये थे तथा दिनांक 31-03-2005 को श्री गजानन पिता श्री सूरजमल अग्रवाल उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है अब फर्म मेसर्स सूरज जीनिंग फैक्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है एवं श्री अनूप अग्रवाल पिता श्री घनश्याम अग्रवाल भागीदारी फर्म में भागीदार के रूप में दिनांक 31-03-2005 को सम्मिलित हो गये हैं यह विदित हो.

(363-बी.)

तर्फे,  
मेसर्स सूरज जीनिंग फैक्ट्री  
1. श्री घनश्याम पिता श्री सूरजमल अग्रवाल,  
2. श्री अनूप अग्रवाल पिता श्री घनश्याम अग्रवाल,  
(भागीदार).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स साकेत कंस्ट्रक्शन से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 01-12-2012 से फर्म का स्थान 646/1, कमल ऑईस फैक्ट्री के सामने, अमरावती रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश 450331 हो गया है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

(359-बी.)

M/s Saket Construction  
किरण देवी चांडक,  
(Partner)  
646/1, कमल ऑईस फैक्ट्री,  
बुरहानपुर (मध्यप्रदेश).

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स व्यंकुण्ठ डेव्हलपर्स से सम्बंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2014 को साझेदारी फर्म में श्री कपिल सोमैया पिता श्री जयंतीलाल सोमैया ने भागीदारी में प्रवेश लिया है। यह सूचनार्थ है कि उक्त दिनांक से फर्म में केवल 1. श्रीमति किरण देवी चांडक पति श्री जुगल किशोर चांडक, 2. श्री जयंतीलाल सोमैया पिता श्री पुरुषोत्तमदास सोमैया, 3. श्रीमति शोभा सोमैया पति श्री जयंतीलाल सोमैया, 4. श्री ओम कुमार बडे पिता श्री बाबुलाल बडे, 5. श्रीमति वीना बडे पति श्री ओम कुमार बडे, 6. श्रीमति सिमनतिनि मुंशी पति श्री मनोज मुंशी, 7. श्रीमति निर्मला देवी मुंशी पति श्री लेट श्री त्रिलोकचंद मुंशी, 8. श्री गोपालभाई पटेल पिता श्री वालजी भाई पटेल, 9. श्रीमति कस्तुर बेन पटेल पति श्री प्रफूल भाई पटेल, 10. श्रीमति रेखा बेन पटेल पति श्री जगदीश भाई पटेल, 11. श्री कपिल सोमैया पिता श्री जयंतीलाल सोमैया उक्त साझेदारी फर्म में भागीदारी है। अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित।

For : Vaikunth Developers

किरण देवी चांडक,

(पार्टनर)

62-63, गोकुलधाम कॉलोनी,

शाहदरा दरगाह रोड, बुरहानपुर (म.प्र.).

(357-बी.)

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सफायर इन्फ्राटेक दिनांक 30 मार्च, 2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00003/सन् 10-11 के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिसे कि पूर्व में दिनांक 07 फरवरी, 2011, 07 मार्च, 2013 तथा 11 अक्टूबर, 2013 को संशोधित किया जा चुका है। अब पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 27 जून, 2014 के द्वारा श्री रोहित वाधवा (एच. यू. एफ.) द्वारा कर्ता श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी—कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हैं तथा इनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी—कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर सम्मिलित हुये हैं। इस तरह साझेदारी विलेख दिनांक 27 जून, 2014 द्वारा उपरोक्त फर्म में निम्नलिखित साझेदार वर्तमान में हैं। (1) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी—कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर, (2) श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्नालाल भारद्वाज, निवासी—28, ललितपुर कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर, (3) श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, निवासी—100, नया बाजार, ग्वालियर (4) श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, निवासी—गीता कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर तथा फर्म का पंजीकृत पता "कोस्मो वेली, बोस्टन कॉलेज के पास, ग्राम डोंगरपुर, ग्वालियर" यथावत रहेगा।

हर आम खास व्यक्ति को सूचित हो।

मैसर्स सफायर इन्फ्राटेक

महेश भारद्वाज,

(पार्टनर)

कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर

(358-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2014-15.

जारी, दिनांक 22 अगस्त, 2015

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, पंकज पिता भूपेन्द्र सोमैया, निवासी—सेठ दौलतराम पटेल कॉलोनी, बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश ने "लॉर्डस् चेरिटेबल ट्रस्ट बुरहानपुर (म.प्र.)" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन क्रिया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 29-09-2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : "लॉर्डस् चेरिटेबल ट्रस्ट, बुरहानपुर (म.प्र.)".
2. चल सम्पत्ति : पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बुरहानपुर में एफ. डी. आर., दिनांक 11-09-2014 मूल राशि 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) एवं पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गुजराती समाज मार्केट, बुरहानपुर में बचत खाता क्रमांक 0074000100149185 में दिनांक 04-07-2015 की स्थिति अनुसार जमा राशि रुपये 2,79,139.90 (दो लाख उनअस्सी हजार एक सौ उनचालीस रुपये नब्बे पैसे).
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

के. आर. बड़ोले,  
पंजीयक.

(507)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-मझगवां एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना, जिला के समक्ष.

अतः कि श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी पिता नरेश तिवारी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27 सितम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम और पता : श्री चाणक्य सेवा संघ न्यास साकिन, शिवपुरी कामता चित्रकूट, मकान नं.-27/2, तहसील-मझगवां, जिला सतना (म.प्र.).
2. अचल सम्पत्ति : ग्राम-नयागाँव की आराजी नं. 906/7/1/क रकबा 0.639 हे.
3. चल सम्पत्ति : 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र).

प्रारूप-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, दीपक वैद्य, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 27 सितम्बर, 2015 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 27 सितम्बर, 2015 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

दीपक वैद्य,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(508)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/2012-13.

#### फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30, 1951) की धारा-5 (2) एवं  
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष मोटीमाता मार्ग, मोतीपुरा, खरगोन द्वारा "श्री साईकृपा सेवा संस्थान" के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक-30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1	2	3	4	5
1.	नगद	—	—	11,000.00 रुपये
2.	अचल सम्पत्ति	—	—	—

महेन्द्रसिंह कवचे,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(510)

### न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास पथरिया, जिला दमोह

#### प्रारूप क्रमांक-4

[ देखें नियम-5(1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा ]

यह कि श्री जानकीरमणजी श्री कौशलाधीशजी और श्री श्री 108 महावीरजी मंदिर को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 13 अक्टूबर, 2015 को विचार कर सुनवाई में लिया जावेगा.

किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति सूचना-पत्र के प्रकाशन से नियत दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 तक दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकते हैं या मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

## अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता	..	श्री जानकीरमणजी श्री कौशायाधोशजी और श्री श्री 108 महावीरजी मंदिर कैथोरा पथरिया, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.).
सम्पत्ति का विवरण	..	1. मौजा पथरिया, तहसील पथरिया, जिला दमोह में रकबा 155×86 वर्गफीट भूमि है जिसमें मंदिर 40×50 2000 वर्गफीट है. 2. मौजा पथरिया, कैथोरा में स्थित कृषि भूमि कुल ख. नं. 92, 196, 200, 302, 344, 466, 438, 411 कुल रकबा 3.38 हेक्टेयर. 3. चल-सम्पत्ति करीबन 30,000/- रुपया.

एन. एल. सामरथ,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(511)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बडनगर, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 1/बी-113/14-15.

प्रो. र. नं. 539/2-9-15

## फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर तीर्थ पेढी रूनिजा द्वारा अध्यक्ष श्री मॉंगीलाल पिता लालचंदजी जैन, निवासी ग्राम भाटपचलाना के द्वारा ट्रस्ट को पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय नियमावली के प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के पश्चात्/उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	..	श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर तीर्थ पेढी रूनिजा
ट्रस्ट का पता	..	ग्राम रूनिजा तहसील बडनगर, जिला उज्जैन
चल सम्पत्ति	..	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रत्तागढ़खेडा के बैंक खाता क्रमांक 422402010002888 में जमा राशि. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भाट पचलाना के बैंक खाता क्रमांक 911420100010040 में जमा राशि नर्मदा ज्ञानुआ ग्रामीण बैंक शाखा खेडावदा के बैंक खाता क्रमांक 041010110000416 में जमा राशि.
नगद	..	राशि 25,000/- पच्चीस हजार रुपया.
अचल सम्पत्ति	..	ग्राम रूनिजा में पीपली चौक पर एक जैन मंदिर एवं उससे लगा हुआ उपाश्रय जो कि मंदिर से पूर्व-उत्तर दिशा में लगा हुआ है. मंदिर के पश्चिम और दक्षिण हिस्से में दुकान बनी हुई है. जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है— मंदिर के पूर्व में—श्री राम मंदिर की खुली जगह पश्चिम दिशा में—आम रास्ता उत्तर दिशा में—उपाश्रय से लगा हुआ श्रीराम मंदिर दक्षिण दिशा में—आम रास्ता ग्राम माधोपुरा की ओर

आज दिनांक 02 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

आर. आर. मीना,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(512)

## कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 03 सितम्बर, 2015

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,  
श्री कृष्ण मॉडल गृह निर्माण सहकारी  
संस्था मर्या., देवास.  
पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 07 अक्टूबर, 1981

- |                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. सौ. गायत्रीदेवी श्रीमंत तुकोजीराव पवार | 2. कमल रामलाल                        |
| 3. प्रफुल्ल मधुकरराव शिन्दे               | 4. विक्रमसिंह तुकोजीराव पवार         |
| 5. गणपत गोपालजी                           | 6. तुकोजीराव कृष्णाजीराव पवार (स्व.) |
| 7. दिनेश कन्हैयालाल पंडित                 | 8. शंकर                              |
| 9. सौ. भारती देवी नरेन्द्र मोहिते         |                                      |

क्र./परि./2015/1530.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि परिसमापन कक्ष द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था का निर्वाचन कार्यकाल पूर्ण होने पर निर्वाचन कराने हेतु पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2013/1847, दिनांक 11-07-2013 से आपको निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था. संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची प्रस्तुत न करने पर प्रथम स्मरण-पत्र, पत्र क्रमांक/2138, दिनांक 13 अगस्त, 2013 दिया गया फिर भी निर्वाचन में कोई रुचि न होने पर अंतिम स्मरण-पत्र, पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2014/804, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 संस्था को दिया गया किंतु संस्था के पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, संस्था निर्वाचन कराये जाने हेतु तत्पर नहीं है.

साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2014/865, दिनांक 26 अप्रैल, 2014 से निर्वाचन में रुचि न लेने के कारण संस्था के विगत तीन वर्षों के आडिट नोट भेजने हेतु सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को लिखा गया, उनके द्वारा पत्र क्रमांक-867, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 से प्रस्तुत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के अंकेक्षक क्रमशः श्री एम. एस. चौरसिया, सहकारी निरीक्षक, श्री एन. के. गुप्ता, व. स. नि. एवं श्री आर. सी. मालवीय, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत आडिट नोट में संस्था को पंजीकृत पते पर न होना तथा अकार्यशील बताते हुए परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है.

साथ ही कलेक्टर जिला देवास ने अपने पत्र क्रमांक/462/रीडर/नजूल/2014, देवास, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 द्वारा अवगत कराया है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तथा निर्देशित किया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाकर उन्हें अवगत कराया जावे.

मेरे द्वारा भी क्रमांक/परि/2014/879, देवास, दिनांक 29 अप्रैल, 2014 से आपको धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. इसके प्रतिउत्तर में आपने दिनांक 02 मार्च, 2015 को निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं नोटिस को समाप्त करने का निवेदन किया था. निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी श्रीमति मंजु अग्रवाल द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2015 को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदस्य द्वारा, नियोजन पत्र नहीं भरा गया है. तत्पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पुनः निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया था. संस्था की निर्वाचन अधिकारी श्रीमति मंजु अग्रवाल द्वारा पुनः दिनांक 30 अगस्त, 2015 को कार्यालय में जानकारी दी गयी कि संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा नियोजन फार्म नहीं भरे गये हैं. सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में उदासीनता प्रकट करने से यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था के चलाने में कोई रुचि नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि सूचना-पत्र प्राप्ति के पंद्रह दिवस में लिखित में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें अथवा दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 03 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,  
उप-आयुक्त.

(505)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2015-आश्विन 3, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 मई, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के जबलपुर, मंडला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जबलपुर (जबलपुर), बिछिया (मण्डला) (डिण्डोरी) चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.— जिला ग्वालियर, मंदसौर, देवास, झाबुआ, जबलपुर में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला दमोह में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, सतना, उमरिया, नीमच, बड़वानी, नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27 मई, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..		4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		अधिक	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				



1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) तुअर, जौ, अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	..		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		समान.		
4. सागर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जायद फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंग, उड़द, मक्का. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्तियान	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	..	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ौदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ...	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ...	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ...	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ...
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	..	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
*जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..		कम.		
4. गौहरगंज	..		(2) ..		
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) मूंग अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	1.4				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..	..	4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..	..	(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..	..			
4. गोटेगांव	..	..			
5. तेन्दूखेड़ा	..	..			
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..	..	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	1.9	..	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	..	..			
4. मण्डला	..	..			
5. घुघरी	..	..			
6. नारायणगंज	..	..			
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	1.0	..	4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मटर बिगड़ी हुई. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..	..	(2) ..		
3. शाहपुरा	..	..			
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..	..	4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..	..	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..	..			
4. जामई (तामिया)	..	..			
5. सोंसर	..	..			
6. पांदुर्णा	..	..			
7. अमरवाड़ा	..	..			
8. चौरई	3.2	..			
9. बिछुआ	..	..			
10. हरई	..	..			
11. मोहखेड़ा	..	..			
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..	..	4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..	..	(2) ..		
3. लखनादौन	..	..			
4. बरघाट	..	..			
5. उरई	..	..			
6. घंसौर	..	..			
7. घनोरा	..	..			
8. छपारा	..	..			
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..	..	4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..	..	(2) ..		
3. बैहर	..	..			
4. वारासिवनी	..	..			
5. कटंगी	..	..			
6. किरनापुर	..	..			

टीप.— \*जिला अशोकनगर, शहडोल, रतलाम, खण्डवा, सीहोर, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(504)